

मवेशी संरक्षण कानून बनाने की शक्तियाँ राज्यों के पास

संदर्भ

केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारें पशुओं के संरक्षण के लिये वधि बिना सकती हैं। इस मामले में राज्यों को भारतीय संविधान के तहत वशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं।

परमुख बट्टि

- गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिये राजस्थान उच्च न्यायालय के सुझाव के जवाब में केंद्रीय सरकार ने मंगलवार को राज्य सभा को बताया कि राज्य विधानसभाओं में मवेशियों के संरक्षण के लिये कानून बनाने के लिये अनन्य शक्तियाँ हैं।

क्या है संविधानिक स्थिति?

- संविधान के अनुच्छेद 246(3) के तहत भारत संघ और राज्यों के बीच वधायी शक्तियों के वितरण के तहत, मवेशियों का संरक्षण एक ऐसा मामला है जिस पर राज्यों की वधायिका के पास कानून बनाने की वशिष्ट शक्तियाँ हैं। क्योंकि मवेशी अथवा पशुधन राज्य सूची का वषिय है।
- इस अनुच्छेद के अनुसार किसी राज्य के विधानमंडल को सातवीं अनुसूची की सूची 2 में (राज्य अनुसूची) प्रगणति किसी भी वषिय के संबंध में उस राज्य या उसके किसी भाग के लिये वधि बिनाने की अनन्य शक्तियाँ हैं।
- राज्य सूची में वर्तमान में 62 वषिय हैं, संविधान के लागू होने के समय इसमें 66 वषिय थे।

राजस्थान उच्च न्यायालय

- गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने 31.5.2017 के आदेश के अनुसार सलाह दी थी कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिये।
- न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि वह गायों की सुरक्षा और संरक्षण के लिये कदम उठाए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे।

घटनाओं की शृंखला

- हाल के कुछ दिनों में गायों के वध, खपत और परिवहन पर लोगों, ज्यादातर मुस्लिम और दलितों पर हमले की घटनाओं के कारण केंद्र सरकार की यह प्रतिक्रिया सामने आई है। वपिकषी दलों की मांग पर भीड़ द्वारा हत्या के मुद्दे पर राज्य सभा में चर्चा हो सकती है।